

भारतीय विद्यालय अल वादी अल कबीर

शीतावकाश कार्य पत्रिका, कक्षा - 9, सत्र: 2014 - 2015

मुक्त पाठ्य सामग्री के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (1) जंक फूड के विरुद्ध (खिलाफ) जागरूकता लाने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए ?
- (2) जंक फूड का लगातार सेवन बच्चों के सुनहरे भविष्य में किस प्रकार रुकावट बन सकता है ?
- (3) जंक फूड के सेवन से बचने के लिए आप अपने मित्र को क्या सलाह देना चाहेंगे ?
- (4) जंक फूड से कौन - कौन सी बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है ? डायग्राम द्वारा उत्तर प्रस्तुत कीजिए ।
- (5) परंपरागत फास्ट - फूड क्या है ? इसकी विशेषताओं के बारे में क्या कहा गया है ?
- (6) एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम नमक की आवश्यकता है ? चित्र-2 के आधार पर विभिन्न जंक फूड में नमक की मात्रा प्रस्तुत कीजिए ।
- (6) भारतीय अंतरिक्ष संस्था 'इसरो' कैसे दुनिया की चौथी अंतरिक्ष संस्था बन गई ?
- (7) भारतीय मंगलयान 'मॉम' की लागत के बारे में क्या कहा गया है ?
- (8) भारतीय मंगलयान अभियान की सफलता किस प्रकार देश के आत्मविश्वास एवं स्वालंबन को बढ़ाने में सहायक होगी ?
- (9) मंगलयान के निर्माण में हुए खर्च को अत्यधिक अल्प रखने हेतु किस प्रकार उपाय किए गए हैं ? क्या ऐसे उपाय अन्य क्षेत्रों में भी किए जा सकते हैं ? अपने विचार रखिए ।

नोट: उत्तर हेतु अतिरिक्त पन्नों का इस्तेमाल कीजिए